



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 ज्येष्ठ, 1941 (श०)

संख्या- 458 राँची, शुक्रवार,

31 मई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

28 मई, 2019

संख्या-5/आरोप-1-149/2018-2384 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती मेघना रुबि कच्छप, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, खूँटी के विरुद्ध निविदा संख्या- KNP-19/2017-18 दतिया रोड से बेलाहाथी पीपल चौक तक सड़क का कालीकरण कार्य को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से मेसर्स रवि मिश्रा को आवंटित करने, कार्य का पर्यवेक्षण नहीं करने, सड़क बनाने का औचित्य नहीं होने के बावजूद पथ का प्राक्कलन काल्पनिक Traffic Census Data के आधार पर तैयार करने एवं प्राक्कलन में Culvert बनाने का कार्य सम्मिलित करने तथा निविदा के निष्पादन में सरकारी नियमों की अनदेखी करने संबंधी आरोप, जैसा कि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5902, दिनांक 14.12.2018 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्रीमती कच्छप के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती कच्छप को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।
4. श्रीमती कच्छप द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।
5. श्रीमती कच्छप के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, खूँटी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MEGHNA RUBY KACHCHAP 20060400044	श्रीमती मेघना रुबि कच्छप, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, खूँटी के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
